



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

5 चैत्र 1937 (श0)  
(सं0 पटना 393) पटना, वृहस्पतिवार, 26 मार्च 2015

---

बिहार विधान-सभा सचिवालय

-----  
अधिसूचना

17 मार्च 2015

सं0 वि०स०वि०-02/2015-663/वि०स० ।—“बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 17 मार्च, 2015 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,  
हरeram मुखिया,  
प्रभारी सचिव।

## बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015

[वि०वि०स०-02/2015]

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों की निकासी 1 अप्रील 2015 से शुरू होने वाले वर्ष के प्रथम चार माहों की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने निमित्त विधेयक।

**भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है:**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1-(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रील 2015 से प्रवृत्त होगा ।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 में सकल व्यय 1211,54,33,20,000/- रुपये का एक तिहाई राशि को रुपये हजार में करते हुए व्यय करने हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए लेखानुदान में राशि प्रस्तावित है।

3. 2015-16 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 403,84,78,10,000 (चार सौ तीन अरब चौरासी करोड़ अठहत्तर लाख दस हजार) रुपये की निकासी 1- बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 01 अप्रील 2015 को शुरू होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 403,84,78,10,000 (चार सौ तीन अरब चौरासी करोड़ अठहत्तर लाख दस हजार) रुपये, जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकाले जा सकेंगे।

4. विनियोग-1 - इस अधिनियम द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 01 अप्रील 2015 को प्रारंभ होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

**अनुसूची**  
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	8,04,93,95,000		8,04,93,95,000
		पूंजी	1,39,47,34,000		1,39,47,34,000
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	1,76,68,67,000		1,76,68,67,000
		पूंजी			
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	1,88,27,53,000		1,88,27,53,000
		पूंजी	8,11,59,55,000		8,11,59,55,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	52,41,81,000		52,41,81,000
		पूंजी	6,84,72,000		6,84,72,000
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व		3,67,14,000	3,67,14,000
		पूंजी			
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व	1,03,27,74,000		1,03,27,74,000
		पूंजी			
7	निगरानी विभाग	राजस्व	11,73,85,000		11,73,85,000
		पूंजी			
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	42,86,44,000		42,86,44,000
		पूंजी	11,67,000		11,67,000
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,93,52,66,000		1,93,52,66,000
		पूंजी	54,80,36,000		54,80,36,000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	14,31,43,24,000		14,31,43,24,000
		पूंजी	13,80,86,67,000		13,80,86,67,000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	6,53,10,16,000		6,53,10,16,000
		पूंजी	5,33,34,000		5,33,34,000
12	वित्त विभाग	राजस्व	85,19,52,000	1,63,95,35,000	2,49,14,87,000
		पूंजी	8,00,00,000		8,00,00,000
13	सूद भुगतान	राजस्व		24,06,92,67,000	24,06,92,67,000
		पूंजी			
14	ऋण अदायगियां	राजस्व			
		पूंजी		12,98,42,66,000	12,98,42,66,000

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
15	पेंशन	राजस्व	43,22,76,39,000	3,79,12,000	43,26,55,51,000
		पूंजी			
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	14,54,77,38,000		14,54,77,38,000
		पूंजी	1,000		1,000
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	43,66,71,000		43,66,71,000
		पूंजी			
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	7,11,59,30,000		7,11,59,30,000
		पूंजी			
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	76,65,51,000		76,65,51,000
		पूंजी	66,67,000		66,67,000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	11,70,00,38,000		11,70,00,38,000
		पूंजी	4,87,21,99,000		4,87,21,99,000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	69,19,97,16,000		69,19,97,16,000
		पूंजी	4,22,68,42,000		4,22,68,42,000
22	गृह विभाग	राजस्व	19,00,18,08,000		19,00,18,08,000
		पूंजी	1,59,50,20,000		1,59,50,20,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	2,59,84,79,000		2,59,84,79,000
		पूंजी	3,31,67,000		3,31,67,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	67,02,09,000		67,02,09,000
		पूंजी			
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	58,41,87,000		58,41,87,000
		पूंजी	6,66,67,000		6,66,67,000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	1,70,06,60,000		1,70,06,60,000
		पूंजी	1,33,34,000		1,33,34,000
27	विधि विभाग	राजस्व	2,18,83,32,000		2,18,83,32,000
		पूंजी			
28	उच्च न्यायालय	राजस्व		44,50,21,000	44,50,21,000
		पूंजी			
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	6,73,97,000		6,73,97,000
		पूंजी			

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	60,10,37,000		60,10,37,000
		पूंजी	39,68,94,000		39,68,94,000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	57,00,000		57,00,000
		पूंजी			
32	विधान मंडल	राजस्व	48,59,80,000	38,13,000	48,97,93,000
		पूंजी			
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	1,63,57,27,000	1,36,88,000	1,64,94,15,000
		पूंजी			
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व		6,03,40,000	6,03,40,000
		पूंजी			
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	89,42,25,000		89,42,25,000
		पूंजी	5,61,39,70,000		5,61,39,70,000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	1,53,39,86,000		1,53,39,86,000
		पूंजी	3,51,98,00,000		3,51,98,00,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	4,69,60,38,000		4,69,60,38,000
		पूंजी	18,04,09,92,000		18,04,09,92,000
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	48,73,96,000		48,73,96,000
		पूंजी			
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	3,42,00,73,000		3,42,00,73,000
		पूंजी	13,34,000		13,34,000
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	2,25,57,47,000		2,25,57,47,000
		पूंजी	12,52,18,000		12,52,18,000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	3,13,35,73,000		3,13,35,73,000
		पूंजी	16,18,33,00,000		16,18,33,00,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	16,57,55,23,000		16,57,55,23,000
		पूंजी	81,13,50,000		81,13,50,000
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	32,72,09,000		32,72,09,000
		पूंजी	8,07,00,000		8,07,00,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	4,98,84,03,000		4,98,84,03,000
		पूंजी	33,34,000		33,34,000
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	40,34,98,000		40,34,98,000
		पूंजी	19,65,000		19,65,000

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	8,75,59,000		8,75,59,000
		पूंजी	11,00,41,000		11,00,41,000
47	परिवहन विभाग	राजस्व	18,54,33,000		18,54,33,000
		पूंजी	75,64,000		75,64,000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	7,23,28,32,000		7,23,28,32,000
		पूंजी	34,000		34,000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	2,87,07,50,000		2,87,07,50,000
		पूंजी	4,75,72,05,000		4,75,72,05,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	2,29,38,60,000		2,29,38,60,000
		पूंजी	73,41,67,000		73,41,67,000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	13,92,96,63,000		13,92,96,63,000
		पूंजी	10,00,000		10,00,000
योग राजस्व			2,79,28,41,24,000	26,30,62,90,000	3,05,59,04,14,000
योग पूंजी			85,27,31,30,000	12,98,42,66,000	98,25,73,96,000
महायोग			3,64,55,72,54,000	39,29,05,56,000	4,03,84,78,10,000

**उद्देश्य एवं हेतु**

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। ऐसी विधि में यह व्यवस्था रहेगी कि

(क) विधान सभा द्वारा पारित किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित निधि में से विनियोजित की जायगी।

यह विधेयक इसलिए लाया जा रहा है कि जब तक विधान सभा 01 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ होने वाले वर्ष के आय-व्ययक (बजट) पर विस्तार पूर्वक विचार नहीं कर लेती तब तक उस वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से (संविधान के अनुच्छेद 206(1) के अधीन) मात्र 403,84,78,10,000 (चार सौ तीन अरब चौरासी करोड़ अठहत्तर लाख दस हजार) रुपये जो प्रथम चार महीने का खर्च है, दिए और विनियोजित किए जा सकें।

**(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)**

भार साधक सदस्य।

पटना,  
दिनांक 17 मार्च, 2015

प्रभारी सचिव,  
बिहार विधान-सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 393-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>